



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1930 (श0)
(सं0 पटना 31) पटना, बुधवार, 18 फरवरी 2009

गव्य (यो0-1)49/2008-114
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास)

“संकल्प”

17 फरवरी 2009

बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 210 के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत विभागीय स्तर पर परियोजना के पर्यवेक्षण, मूल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु समीक्षा समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है—

1. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार — वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में
2. निदेशक, गव्य विकास — प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि
3. संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि— कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में।

2. बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 में उल्लिखित विहित अनुदेशों का अनुसरण करते हुए उपर्युक्त गठित समिति द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा वांछित प्रतिवेदन सरकार के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—अस्पष्ट,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 31-571+200-डी0टी0पी0।